

**Time : 3Hrs.****Sem - III/Chem. Engg.  
Industrial Chemistry****Full Marks : 70****Pass Marks : 28**

*Answer all 20 questions from **Group A**, each question carries 1 marks.*

ग्रुप-**A** से सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक है।

*Answer all Five questions from **Group B**, each question carries 4 marks.*

ग्रुप-**B** से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 4 अंक है।

*Answer all Five questions from **Group C**, each question carries 6 marks.*

ग्रुप-**C** से सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंक है।

*All parts of a question must be answered at one place in sequence, otherwise they may not be evaluated.*

एक प्रश्न के सभी अंशों का उत्तर एक ही जगह (लगातार क्रम में) होना चाहिए, अन्यथा वे जाँचे नहीं जा सकते हैं।

*The figure in right hand margin indicate marks.*  
दाँईं पार्श्व के अंक पूर्णांक के सूचक हैं।



**OR(अथवा)**

How will you distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol by Lucas test and Victor Mayer test.

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर लुकास परीक्षण एवं विक्टर मेरर परीक्षण से बतायें।

**10. Discuss Langmuir adsorption isotherm curve.**

6

लैंगम्यूर अधिशेषण समतापी वक्र का वर्णन करें।

**OR(अथवा)**

How are the following conversions carried out ?

- (i) Benzyl chloride → Benzyl alcohol
- (ii) Methyl magnesium bromide → 2-methylpropan  
-2-01

निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है ?

- (1) बेन्जिल क्लोराइड → बेन्जिल ऐल्कोहॉल
- (2) मेथिल मैग्नेशियम ब्रोमाइड → 2 मेथिल प्रोपेन -2- ऑल

(ii) सितारे वाले कार्बन पर संकरण है



- (अ)  $\text{Sp}$
- (ब)  $\text{Sp}^2$
- (स)  $\text{Sp}^3$
- (द)  $\text{Sp}^3\text{d}$

(iii) The carbon-carbon bond lengths in benzene molecule are

- (a)  $1.22 \text{ \AA}^0$
- (b)  $1.34 \text{ \AA}^0$
- (c)  $1.39 \text{ \AA}^0$
- (d)  $1.54 \text{ \AA}^0$

(iii) बेन्जीन अणु में कार्बन-कार्बन बन्धों की लम्बाई होती है

- (अ)  $1.22 \text{ \AA}^0$
- (ब)  $1.34 \text{ \AA}^0$
- (स)  $1.39 \text{ \AA}^0$
- (द)  $1.54 \text{ \AA}^0$

(iv) The equation for Freundlich adsorption isotherm is

- (a)  $x = m k p^{1/n}$
- (b)  $x = m k p^n$
- (c)  $x = m k p^{n-1}$
- (d) None of these

What is Marsh gas ? How it is prepared from alkyl magnesium halide ? Describe halogenation reaction of methane.

- (iii) Carboxylic acid

(i)  $\text{PCl}_5$

(ii)  $\text{SOCl}_2$

(iii)  $\text{CH}_2=\text{CHCl}$

(iv)  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

OR(31911)

፳፻፲፭ የፌዴራል አዲስ አበባ (፩)  
፳፻፲፭ የፌዴራል አዲስ አበባ (፪)  
፳፻፲፭ የፌዴራል አዲስ አበባ (፫)

161430

LV

NT30II

NT30II

4

1614303

Which isomer of dichlorobenzene will have maximum dipole moment?

(a) Ortho

(b) Meta

(c) Para

(d) None of these

- (a) Ortho
  - (b) Meta
  - (c) Para
  - (d) None of these

የፌዴራል ከሚሸጠው በመሆኑ ስለሚከተሉት የፌዴራል ነው፡፡



Which will form maximum boiling point azeotrope.

(a)  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$  solution  
 (b)  $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$  solution  
 (c)  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$  solution  
 (d) None of these

- ፳፻፲፭ (፩)  
፳፻፲፮ (፪)  
፳፻፲፯ (፫)  
፳፻፲፱ (፬)

**GROUP - C**

Answer all **Five** Questions.

$$6 \times 5 = 30$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

7. How will you convert ethanoic acid into benzene?

**6**

आप एथेनोइक अम्ल को बैंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे ?

**OR(अथवा)**

Discuss one component system on the basis of phase rule.

कला नियम के आधार पर one component system की व्याख्या करें।

8. How chloroform is prepared from bleaching powder?

What happens when chloroform reacts with.

(i) Aniline

(ii) Silver powder

**6**

(vi) इनमें से कौन सा अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रोप बनाता है।

(अ)  $C_2H_5OH + H_2O$  solution

(ब)  $C_6H_6 + C_6H_5CH_3$  solution

(स)  $HNO_3 + H_2O$  solution

(द) इनमें से कोई नहीं

(vii) Which of the following compounds gives silver mirror with ammonical silver nitrate?

(a) Benzene

(b) Benzal alcohol

(c) Benzal chloride

(d) Benzaldehyde

(viii) निम्न यौगिकों में से कौन एमोनियेकल सिल्वर नाइट्रोट के साथ सिल्वर दर्पण देता है ?

(अ) बैंजीन

(ख) बैंजेल अल्कोहल

(स) बैंजेल क्लोराइड

(द) बैंजलडिहाइड

(ix) The catalyst used in Friedel-Crafts reaction is

(a) Copper

(b) Platinum

(c) Aluminium chloride

(d) Sodium

ቁልጥ ከላት በላይ የሚፈጸመው በኋይ ተደርጓል  
ቁልጥ ከላት በላይ የሚፈጸመው በኋይ ተደርጓል

Why Fehling solution test is not done for  
benzaldehyde?

### OR(ኤሌክተሪክ)

ስራተኞች አለባቸውን – በላይ ማረጋገጫ

4

6. Explain with an example. Kolbe's reaction

(iii)  $\text{CH}_3\text{COCl}$

(i)  $\text{H}_2\text{SO}_4$

ቁልጥ ይችላል

የሚፈጸመውን የሚፈጸማል እና የሚፈጸማል የሚፈጸማል

- (x) The IUPAC name of  $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$  is :  
 (a) Ethylene Oxide  
 (b) Dimethyl ether  
 (c) Methoxy methane  
 (d) None of these

- (xi) (፩) የሚፈጸማል  
 (፪) የሚፈጸማል  
 (፫) የሚፈጸማል  
 (፬) የሚፈጸማል  
 (፭) የሚፈጸማል

- (ix) A mixture of benzene and toluene forms :  
 (a) An ideal solution  
 (b) Non ideal solution  
 (c) Azeotrope  
 (d) None of these

- (viii) የሚፈጸማል የሚፈጸማል የሚፈጸማል የሚፈጸማል  
 (፩) የሚፈጸማል  
 (፪) የሚፈጸማል  
 (፫) የሚፈጸማል  
 (፬) የሚፈጸማል  
 (፭) የሚፈጸማል  
 (፮) የሚፈጸማል


4. What are differences between Aromatic and Aliphatic compound ?

4


एरोमेटिक एवं एलिफैटिक यौगिक में क्या अन्तर है ?

**OR(अथवा)**

Calculate the number of phase (P) , component (C) and degree of freedom (F) for the system.



नंबर ऑफ फेज (P) , कम्पोनेट (C) तथा डिग्री ऑफ फ्रिडम (F) की गणना इस अवस्था के लिए करें।



5. How phenol obtained from coal-tar ?

4

कोलतार से फिनॉल कैसे प्राप्त होता है ?

**OR(अथवा)**

How benzene reacts with following

- (i)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- (ii)  $\text{CH}_3\text{COCl}$

(x)  $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$  का आई०यू०पी०ए०सी० नाम है?

- (अ) इथिलीन आक्साइड
- (ब) डाइमिथाइल इथर
- (स) मिथाक्सी मिथेन
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xi) Which of the following is used for testing the presence of sugar ?

- (a) Glycerol
- (b) Conc.  $\text{HNO}_3$
- (c) Fehling's solution
- (d) Benedict's solution

(xi) निम्न में कौन सा शुगर के परीक्षण में प्रयोग होता है ?

- (अ) ग्लाईसिरोल
- (ब) सान्द्र नाईट्रिक अम्ल
- (स) फेहलिंग का घोल
- (द) बेनेडिक्ट का घोल

(xii) The reaction of  $\text{Cl}_2$  with hot  $\text{NaOH}$  gives :

- (a)  $\text{NaCl}$
- (b)  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaOCl}$
- (c)  $\text{NaClO}_3$
- (d) None of these

Chemosorption वा Physisorption या कौन सी है।

What is difference between chemisorption and physisorption.

**OR(अलग)**

कार्बोन द्वारा - लेता है।

4

3. Explain : Aldol condensation



आवश्यक है ?

उत्थापित प्रक्रम वा अनुप्रक्रम है।

Distillation process ?

What do you mean by sublimation process and

**OR(अलग)**



फूटालागत अल्ट्राकॉर्स वा IUPAC नाम लिखें।

- (xv)  $\text{KMnO}_4$  oxidizes acetylene in the form of -  
 (a) Acetic acid  
 (b) Oxalic acid  
 (c) Acetone  
 (d) None of these

- (xvi) (a) एथेन द्वारा लेता है।  
 (b) एथेन  
 (c) एथेन  
 (d) एथेन  
 (e) एथेन  
 (xvii) एथेन द्वारा लेता है।  
 (a) एथेन  
 (b) एथेन  
 (c) एथेन  
 (d) एथेन  
 (e) एथेन

- (xviii) Benzene is obtained by polymerization of  
 (a) Acetylene  
 (b) Ethylene  
 (c) Ethane  
 (d) None of these

- (xix) जैव नाइट्रोजन का उत्पादन कैसे होता है?  
 (a)  $\text{NaCl}$ ,  $\text{NaOCl}$   
 (b)  $\text{NaNO}_3$   
 (c)  $\text{NaOCl}$   
 (d)  $\text{NaCl}$   
 (e)  $\text{NaOCl}$ ,  $\text{NaCl}$

(xx) इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके देती है ?

- (अ) ओजोनाइड
- (ब) ईथीन
- (स) एसीटिक अम्ल
- (द) ईथाइल अल्कोहल

(xiv)  $\text{KMnO}_4$  एसीटिलीन को आक्सीकृत करता है।

- (अ) एसीटिक अम्ल
- (ब) आक्स्जेलिक अम्ल
- (स) एसीटोन
- (द) इनमें से कोई नहीं

(xv) When phenol reacts with ammonia in presence of  $\text{ZnCl}_3$  at  $300^\circ \text{C}$  it gives:

- (a) Primary amine
- (b) Alcohols
- (c) Ether
- (d) None of these

(xvi) फीनॉल अमोनिया के साथ  $\text{ZnCl}_2$  की उपस्थिति में  $300^\circ \text{C}$  पर अभिक्रिया कर देता है:

- (अ) प्राथमिक ऐमीन
- (ब) अल्कोहल
- (स) इथर
- (द) इनमें से कोई नहीं


## GROUP B

Answer all **Five** Questions.


$$4 \times 5 = 20$$

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।

2. Give IUPAC names of the following compounds :



4



(xvi) The fragrance of ester is

- (a) Like egg
- (b) Like fruit
- (c) Like fish
- (d) None of these

|   |  |
|---|--|
| <p>(xx) Ethylene reacts with Ozone to give:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Ozonide</li> <li>(b) Ethene</li> <li>(c) Acetic acid</li> <li>(d) Ethyl alcohol</li> </ul>                         | <p>(xviii) Chlorobenzene is prepared commercially by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Raschiging process</li> <li>(b) Wurtz fritting reaction</li> <li>(c) Grignard reaction</li> <li>(d) None of these</li> </ul>        |
| <p>(xix) The compounds having a carbon-carbon double bond are known as</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Alkanes</li> <li>(b) Alkenes</li> <li>(c) Alkynes</li> <li>(d) None of these</li> </ul> | <p>(xvii) Catalytic properties of a substance may be test defined as a phenomenon of?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Adsorption</li> <li>(b) Chemisorption</li> <li>(c) Absorption</li> <li>(d) None of these</li> </ul> |
| <p>(xix) The compounds having a carbon-carbon double bond are known as</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Alkanes</li> <li>(b) Alkenes</li> <li>(c) Alkynes</li> <li>(d) None of these</li> </ul> | <p>(xvi) <del>અનેક્ટ પુરુષ કીએ કે ?</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) હાર્દિક વિધી</li> <li>(b) હાર્દિક વિધી</li> <li>(c) હાર્દિક વિધી</li> <li>(d) હાર્દિક વિધી</li> </ul>   |
| <p>(xviii) <del>અનેક્ટ પુરુષ કીએ કે ?</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) હાર્દિક વિધી</li> <li>(b) હાર્દિક વિધી</li> <li>(c) હાર્દિક વિધી</li> <li>(d) હાર્દિક વિધી</li> </ul>              | <p>(xvii) <del>અનેક્ટ પુરુષ કીએ કે ?</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) હાર્દિક વિધી</li> <li>(b) હાર્દિક વિધી</li> <li>(c) હાર્દિક વિધી</li> <li>(d) હાર્દિક વિધી</li> </ul>  |